

मोटरसाइकिल चोरी के गिरोह का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 348 / 19 धारा 41/411/419/420/467/468/471 भा0द0वि0 मे वांछित अभियुक्त नाम पता मेराज पुत्र मुसई निवासी चकिया थाना लालगंज जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।
विदित हो कि जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा दिनांक 24.10.2019 को वाहन चोरी के गिरोह का पर्दाफास करते हुए 06 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर 03 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया था, तथा उपरोक्त प्रकरण मे उक्त मेराज फरार चल रहा था । जिसमे आज दिनांक 13.10.2020 को दुधारा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा विवाद मे घायल महिला को पहुंचाया गया अस्पताल– पीआरवी 1483 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 05032 से कालर ने किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति द्वारा महिला से मारपीट होने से महिला के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 10 मिनट में घटना स्थल

पर पहुंचकर मारपीट में घायल महिला को पीआरवी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया तथा इस संबंध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल महिला को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु०आरक्षी विशेश्वर प्रसाद, मु०आ०चा० अनिरुद्ध यादव।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 93 वाहनो से 84300 रु० सम्मन शुल्क
वसूल किया गया**

आज दिनांक 13-10-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 93 वाहनो से 84300 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया।